

# प्रेस विज्ञप्ति थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर दिनांक 20.02.2021

## आपरेशन गरल के तहत हरियाणा निर्मित करीब 41000 रुपये के अवैध शराब के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस उपमहानिरीक्षक / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अवैध शराब के विक्री व निष्कर्षण की रोकथान हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल निर्देशन व सहायक पुलिस अधीक्षक /क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के कुशल पर्यवेक्षण में दिनांक 19.02.2021 को प्रभारी निरीक्षक सहजनवा मय हमराहियान के देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारंटी व रात्रिगस्त में भीटीरावत चौराहे पर मौजूद था कि जरिए मुखबिर खास सूचना मिली कि एक स्लेटी रंग की कार भागीरथी पेट्रोल पम्प के बगल हाइवे पर लुधियाना ढाबा के पास खड़ी है , जिस पर अवैध अंग्रेजी शराब तस्करी कर बिहार बेचने हेतु जाने की सूचना है । जिसे मुखबिर की सूचना पर पकड़ लिया गया । गाड़ी में सीट के नीचे से हरियाणा निर्मित अवैध अंग्रेजी शराब MC DOWELLS NO 1 ब्रान्ड की 750ML धारिता की 40 बोतल व 375 ML धारिता की 20 बोतल बरामद हुआ जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 41000 रुपये है। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 47/2021 धारा 60/63/72 EX ACT व 467/468/471 IPC पंजीकृत किया गया ।

### गिरफ्तार किये गये अभियुक्त:-

1. मोहन पुत्र रामचन्द्र निवासी सी 318-सेक्टर 9 थाना सेक्टर 20 नोयडा जिला गौतमबुद्ध नगर
2. गुलजार अहमद पुत्र अब्दुल रहमान निवासी 406 एच- 2 सेक्टर 9 थाना सेक्टर 20 जिला गौतमबुद्धनगर

### बरामदगी:-

1. हरियाणा निर्मित MC DOWELLS NO1 ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब धारिता 750 ML कुल 45 सीसी
2. हरियाणा निर्मित MC DOWELLS NO1 ब्रांड की अवैध अंग्रेजी शराब धारिता 375 ML कुल 20 सीसी
3. एक अदद सेन्ट्रो कार इंजन नं 0G4HG6M935023 व चेचिस नं 0MALAA51HR6M95005

### गिरफ्तारी का स्थान

लुधियाना पंजाबी ढाबा

### गिरफ्तारी व बरामदगी का दिनांक

दिनांक 19.02.2021 समय करीब 20.45 बजे रात

### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. निरीक्षक संतोष कुमार यादव प्रभारी निरीक्षक थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 बैजनाथ बिन्द थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
3. का0 नितेश सिंह थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर
4. का0 पंकज कुमार शर्मा थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर